



यूपीआई: आपके लिए वही सहजता, कल के लिए और अधिक मजबूती



सभी पर्सन-टू-पर्सन लेन-देन

निःशुल्क



पर्सन-टू-मर्चेन्ट के 96% लेन-देन

केवल 4% पर्सन-टू-मर्चेन्ट लेन-देन ₹2,000 से अधिक हैं

निःशुल्क



आवश्यक एवं सरकारी सेवाओं के लिए ₹2,000 तक के लेन-देन

₹2,000 से अधिक: ₹5 का एकसमान एमडीआर

निःशुल्क



सभी रुपये डेबिट कार्ड लेन-देन

निःशुल्क

चुनिंदा उच्च-मूल्य वाले व्यापारी लेन-देन पर मामूली एमडीआर क्यों?



हमारी स्वदेशी भुगतान प्रणाली की दीर्घकालिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए।



यूपीआई को प्रत्येक क्षेत्र और नागरिक तक पहुँचाने के लिए: 120 करोड़ मोबाइल उपयोगकर्ता, लेकिन 56.5 करोड़ यूपीआई उपयोगकर्ता।



भारत के फिनटेक इकोसिस्टम में निवेश लाने के लिए - दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था।



देश के नागरिकों की सेवा के लिए नए उत्पादों और सेवाओं की शुरुआत करने के लिए, जैसे यूपीआई पर क्रेडिट और फीचर फोन पर यूपीआई।



विश्व के **49%** रियल-टाइम इंस्टेंट पेमेंट यूपीआई से होते हैं।

भारत के लोगों ने इसे संभव बनाया।
आपके विश्वास और सहयोग के लिए धन्यवाद।

